



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]	नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940
No. 325]	NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

सा.का.नि. 466(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, कृषभदेव तथा गोगून्दा तहसील ।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोड़ों का गुढ़ा, बान्दरवाड़ा, घोडान कलां, घोडान खुर्द और कायलों का गुढ़ा ग्राम,

(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाठा, नागदा, झालों का गुढ़ा तथा मुणवास ग्राम,

(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुढ़ा तथा सारे ग्राम,

(IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुढ़ा तथा प्रतापपुरा ग्राम,

(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली तथा बड़ा ग्राम,

(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा डांगियों का हुंदर ग्राम,

(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल उबेश्वरजी, धार, बड़ंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढ़ा तथा मारुवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित बल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

(I) माल की टूस ग्राम पंचायत के माल की टूस, गोवला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोबा ग्राम,

(II) धावडिया ग्राम पंचायत के धावडिया, खेड़ाफला, नागलिया, रानी झूंगला और राणिया ग्राम,

(III) भोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के भोपा खेड़ा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,

(IV) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांकरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेड़ा और संग्रामपुरा ग्राम ।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढ़ा और बारां ग्राम,

- (ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावदा ग्राम,
- (iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोवास और कोदार ग्राम,
- (iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलवाड़िया ग्राम,
- (v) बरदडा ग्राम पंचायत के बरदडा, उदावड, कलथाना और कोटडा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुड़ा, गामठों का नोहरा, दामावड़ी, कोलर, मुजेला, लीलेरा, रायनिया, श्यामजी का गुड़ा, सियोल, सोनगरिया और तांतेला ग्राम।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाब, लिंकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रुघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रती तलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा तथा गुन्दलपुर ग्राम,
- (ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूपपुरा तथा मरावडिया ग्राम,
- (ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिवपुरा, टेगडियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,
- (घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, ढीकडिया खेड़ी, पूजां का फलियान, पायरी, केशरपुरा, खांखरिया खेड़ी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाब ग्राम,
- (ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरुण्डी, गढ़ बोरुण्डी, संग्रामपुरा, राठोडों का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द तथा सुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदडा, ठंडी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,
- (ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाडा, कोतीवाडा, कूरण खादरा और खेतरली खाडा ग्राम,
- (ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,
- (घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तणी, उरणा और नाडीया ग्राम,
- (ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरडवा, दानवरली, सांभरवाडा और बेरडी ग्राम,
- (च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,
- (छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

- (ज) लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत के लुन्दाड़ा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,
 (झ) कोयलावाव ग्राम पंचायत के कोयलावाव, चिंगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित :

(क) आबूरोड़ तहसील

(ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, साबेला, वागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाड़ा (ग्रामीण) ग्राम,
- (ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,
- (iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सादलवा और मालप ग्राम,
- (iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवावास, गड़िया और पहाड़ कलां ग्राम,
- (v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेड़ा और कालाबोर ग्राम,
- (vi) माण्डवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वारकी खेड़ा ग्राम,
- (vii) सनवाड़ा ग्राम पंचायत के सनवाड़ा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,
- (viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,
- (ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,
- (x) माण्डवाड़ा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,
- (xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,
- (xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,
- (xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,
- (xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है।

राम नाथ कोविंद,
 राष्ट्रपति।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2018

G.S.R. 466(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O.270"

THE SCHEDULED AREAS (STATE OF RAJASTHAN) ORDER, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 1981, and in consultation with the Governor of that State, is pleased to make the following Order, namely: —

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 2018.
 (2) It shall come into force at once.
2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Rajasthan:—
 - (1) Banswara district.
 - (2) Dungarpur district.
 - (3) Pratapgarh district.
 - (4) The following in Udaipur district:
 - (a) Tehsils of Kotra, Jhadol (erstwhile Phalasia), Lasadia, Salumbar, Sarada, Kherwara, Rishabhdeo and Gogunda;
 - (b) the following in Girwa tehsil:
 - (i) Girwa block,
 - (ii) the following villages of the gram panchayats of block Bargaon as mentioned below: —
 - (I) Madar, Brahmanon Ki Hunder, Rathoron Ka Gurha, Bandarwara, Ghodan Kalan, Ghoran Khurd and Kaylon Ka Gurha villages of Madar gram panchayat,
 - (II) Kailashpuri, Raya, Karawari, Mathatha, Nagda, Jhalon Ka Gurha and Munwas villages of Kailashpuri gram panchayat,
 - (III) Cheerwa, Mohanpura, Shivpuri, Karelton Ka Gurha and Sare villages of Cheerwa gram panchayat,
 - (IV) Amberi, Bheelon Ka Bedla, Oton Ka Gurha and Pratappura villages of Amberi gram panchayat,
 - (V) Dheekli and Bada villages of Dheekli gram panchayat,
 - (VI) Kavita, Barodiya, Ghasiyar and Dangiyon Ka Hundar villages of Kavita gram panchayat,

- (VII) Gehloton Ka Was, Beeyal, Kundal Ubeshwarji, Dhar, Badanga and Banadiya villages of Dhar gram panchayat;
- (c) the Nauwa, Khadra, Raiji Ka Gurha and Maruwas villages of the Nauwa gram panchayat of Mavli tehsil;
- (d) the following villages of the gram panchayats of Vallabhnagar tehsil as mentioned below:—
- (I) Mal Ki Toos, Gowala, Phalet, Tank and Brahmanon Ka Roba villages of Mal Ki Toos gram panchayat,
 - (II) Dhawariya, Kheraphala, Nagaliya, Rani Doongla and Raniya villages of Dhawariya gram panchayat,
 - (III) Bhopa Khera, Beripura, Hamerpura, Phoosariya and Rayla villages of Bhopa Khera gram panchayat,
 - (IV) Kundai, Bhamela, Gotipa, Kankariyon Ka Khera, Naharpura *alias* Narpura, Padma Khera and Sangrampura villages of Kundai gram panchayat.
- (5) The following in Rajsamand district:
- (a) the following villages of the gram panchayats of Kumbhalgarh tehsil as mentioned below:
 - (i) Antri, Sandookon Ka Gurha and Baran villages of Antri gram panchayat,
 - (ii) Kucholi, Keshar and Bawada villages of Kucholi gram panchayat,
 - (iii) Ora, Dowas and Kodar villages of Ora gram panchayat,
 - (iv) Peepana, Jetaran and Delwariya villages of Peepana gram panchayat,
 - (v) Bardara, Udaraw, Kalthana and Kotra villages of Bardara gram panchayat;
 - (b) the following villages of Kaliwas gram panchayat of Nathdwara tehsil, namely, Kaliwas, Barwa, Barwaliya, Beran, Kamli Ka Gurha, Gamethon Ka Nohara, Damawari, Kolar, Munjela, Leelera, Rainiya, Shyamji Ka Gurha, Siyol, Songariya and Tantela.
- (6) The following villages of the gram panchayats of Bari Sadri tehsil in Chittorgarh district as mentioned below:
- (a) Afron Ka Talab, Linkoda, Sultanpura, Borkhera, Semal Khera, Rughnathpura, Keekhera, Rati Talai, Rati Chandji Ka Khera, Chandpura, Sabalpura and Gundal Pur villages of Rati Chandji Ka Khera gram panchayat,
 - (b) Ameerama, Manpura, Parbati, Roop Pura and Maraodiya villages of Ameerama gram panchayat,
 - (c) Kewalpura (A), Kewalpura Jageer, Rawatpura, Shiv Pura, Tegariyo Ka Phala, Naya Khera, Rani Malya, Kali Bheet, Lachhimpura, Haripura, Shyampura, Jooni Barwal, Kalyanpura and Kewalpura (B) villages of Kewalpura gram panchayat,

- (d) Moonjwa, Jaisinghpura, Eklinghpura, Matamagari, Dheekriya Kheri, Pujan Ka Phalian, Payri, Kesharpura, Khankhariya Kheri, Lalpura, Kala Khet and Deepon Ka Talab villages of Moonjwa gram panchayat,
- (e) Parsoli, Borundi, Garh Borundi, Sangrampura, Rathoron Ka Khera, Kheri Kalan, Kheri Khurd and Sukhpura villages of Parsoli gram panchayat.
- (7) The following villages of the gram panchayats of Bali tehsil in Pali district as mentioned below:
- (a) Amliya, Kagdara, Thandi Beri, Laxman Pura Jod and Bothara villages of Amliya gram panchayat,
 - (b) Kooran, Khetrali, Kolwara, Kotiwada, Kooran Khadra and Khetrali Khada villages of Kooran gram panchayat,
 - (c) Goriya and Korwa villages of Goriya gram panchayat,
 - (d) Bheemana, Upla Bheemana, Tani, Urana and Nadiya villages of Bheemana gram panchayat,
 - (e) Kakradi, Aradwan, Danverli, Sambharwara and Berdi villages of Kakradi gram panchayat,
 - (f) Malnoo, Heerola and Lalpura villages of Malnoo gram panchayat,
 - (g) Peepla village of Peepla gram panchayat,
 - (h) Lundara, Chimanpura and Maldar villages of Lundara gram panchayat,
 - (i) Koyalavao, Chingta Bhata and Chopka Ki Nal villages of Koyalavao gram panchayat.
- (8) The following in Sirohi district:
- (a) Aburoad tehsil;
 - (b) the following villages of the gram panchayats of Pindwara tehsil as mentioned below:
 - (i) Varli, Kundal, Sabela, Vagdari, Dhanga, Kalumbari and Pindwara (Rural) villages of Varli gram panchayat,
 - (ii) Moras, Cheeniya Band and Bhadaveri villages of Moras gram panchayat,
 - (iii) Amli, Thandi Beri, Sadalwa and Malap villages of Amli gram panchayat,
 - (iv) Gharat, Malera, Navawas, Gadiya and Pahar Kalan villages of Gharat gram panchayat,
 - (v) Lotana, Apri Khera and Kalabor villages of Loutana gram panchayat,
 - (vi) Mandwara Khalsa, Khokhri Khera and Varki Khera villages of Mandwara Khalsa gram panchayat,
 - (vii) Sanwara, Sada Phali, Navawas Dev, Navawas Khalsa and Semli villages of Sanwara gram panchayat,

-
- (viii) Isra, Ker, Ubera and Churli Khera villages of Isra gram panchayat,
 - (ix) Waloriya village of Waloriya gram panchayat,
 - (x) Mandwara Deo, Peetari Padar, Kedar Padar and Bor Umri villages of Mandwara Deo gram panchayat,
 - (xi) Bhoola village of Bhoola gram panchayat,
 - (xii) Achhpura, Kaseenda, Nagpura, Panch Dewal, Block No. 2 and Kotra villages of Achhpura gram panchayat,
 - (xiii) Basant Garh village of Basant Garh gram panchayat,
 - (xiv) Siwera, Rajpura, Keshavganj and Darla Padar villages of Siwera gram panchayat.

3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

RAM NATH KOVIND,
President.

[F. No. 1(31)/2017-Leg. I]
Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.